



पत्रांक:

892 / W-14 / 82

दिनांक: 22/11/2024

सेवा में,

प्रोजेक्ट मैनेजर

कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा० लिमिटेड

3/83, विष्णुपुरी, प्लैट सं० 101, प्रथम तल, कानपुर।

विषय : अनुबध संख्या- 14/जी०एम०/2018-19 के अन्तर्गत 30 एमएलडी एसटीपी पनका एवं तत्संबंधित आई०पी०एस०, सीवर नेटवर्क के संचालन एवं अनुरक्षण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि दिनांक 14.11.2024 को अधोहस्ताक्षरी के साथ इस इकाई क सहायक परियोजना अभियन्ता श्री रोहित कुमार यादव एवं श्री इन्द्र देव पाण्डेय, सपोर्ट इंजी०, एस०टी०सी० के साथ थर्मल नाला ए के पास आप द्वारा 1200 मिमी व्यास की आर०सी०सी० एन०पी०३ पाइप लाइन बिछायी गयी है। आपको अवगत कराना है कि आप द्वारा थर्मल नाला ए के पास नाले की पुलिया के तली के नीचे उक्त सीवर लाइन को ट्रेन्चलेस विधि द्वारा क्रास करायी गयी है। वर्तमान में पुलिया के नीचे उक्त सीवर लाइन के ऊपर का कवर क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिस कारणवश थर्मल नाला ए का सीवेज थर्मल नाला ए के टैपिंग प्वाइंट तक न पहुँचकर क्षतिग्रस्त कवर के अन्दर प्रवाहित हो रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकरण का संज्ञान लेकर उक्त सीवर लाइन का तत्काल मरम्मत कराया जाना सुनिश्चित करें। ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटित न हो।

भवदीय

*P. Singh*

(पूजा)

परियोजना अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- परियोजना प्रबन्धक, गं०प्र०नि०ई०, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
- 2- श्री रोहित कुमार यादव, सहायक परियोजना अभियन्ता।
- 3- पी०ई०, एस०टी०सी०, कानपुर।

*P. Singh*

परियोजना अभियन्ता